

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETE OF INDIA, EXTRAORDINARY PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

Notification 74

New Delhi, the 25th October, 2018

G.S.R.....(E). – In exercise of the powers conferred by sections 197 and 206C read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. Short title and commencement, – (1) These rules may be called the Income – tax (Eleventh Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962,-

(I) for rule 28, the following rule shall be substituted, namely: –

“Application for grant of certificates for deduction of income-tax at any lower rates or no deduction of income-tax.

28. (1) An application by a person for grant of a certificate for the deduction of income-tax at any lower rates or no deduction of income-tax, as the case may be, under sub-section (1) of section 197 shall be made in Form No. 13 electronically, —

- (i) under digital signature; or
- (ii) through electronic verification code.

(2) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall lay down procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and uploading of documents and the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the furnishing of Form No.13.”;

(II) in rule 28AA, –

(A) in sub-rule (2), –

- (a) in clause (ii), for the words “income, as the case may be, of the last three”, the words “or estimated income, as the case may be, of last four” shall be substituted;
- (b) in clause (iv), after the word “payment”, the words “, tax deducted at source and tax collected at source” shall be inserted;
- (c) clause (v) and clause (vi) shall be omitted;

(B) for sub-rule (4), sub-rule (5) and sub-rule (6), the following sub-rules shall, respectively, be substituted, namely:—

“(4) The certificate for deduction of tax at any lower rates or no deduction of tax, as the case may be, shall be issued direct to the person responsible for deducting the tax under advice to the person who made an application for issue of such certificate:

Provided that where the number of persons responsible for deducting the tax is likely to exceed one hundred and the details of such persons are not available at the time of making application with the person making such application, the certificate for deduction of tax at lower rate may be issued to the person who made an application for issue of such certificate, authorising him to receive income or sum after deduction of tax at lower rate.

(5) The certificates referred to in sub-rule (4) shall be valid only with regard to the person responsible for deducting the tax and named therein and certificate referred to in proviso to the sub-rule (4) shall be valid with regard to the person who made an application for issue of such certificate.

(6) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall lay down procedures, formats and standards for issuance of certificates under sub-rule (4) and proviso thereto and the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the issuance of said certificate.”;

(III) in rule 28AB, —

(A) in sub-rule (2), —

- (a) in clause (i), the word “and” shall be inserted at the end;
- (b) in clause (ii), the words “and” occurring at the end shall be omitted;
- (c) clause (iii) shall be omitted.

(IV) for rule 37G, the following rule shall be substituted, namely: —

“Application for certificate for collection of tax at lower rates under sub-section (9) of section 206C

37G. (1) An application by the buyer or licensee or lessee for a certificate under sub-section (9) of section 206C shall be made in Form No. 13 electronically, -

- (i) under digital signature; or
- (ii) through electronic verification code.

(2) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall lay down procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and uploading of documents and the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the furnishing of Form No.13” ;

(V) in rule 37H, —

(a) for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

(1) Where the Assessing Officer, on an application made by a person under sub-rule (1) of rule 37G is satisfied that existing and estimated tax liability of a person justifies the collection of tax at lower rate, the Assessing Officer shall issue a certificate in accordance with the provisions of sub-section (9) of section 206C for collection of tax at such lower rate;

(1A) The existing and estimated tax liability referred to in sub-rule (1) shall be determined by the Assessing Officer after taking into consideration the following, namely: —

- (i) tax payable on estimated income of the previous year relevant to the assessment year;
- (ii) tax payable on the assessed or returned or estimated income, as the case may be, of the last four previous years;
- (iii) existing liability under the Act and the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);
- (iv) advance tax payment, tax deducted at source and tax collected at source for the relevant assessment year relevant to the previous year till the date of making application under sub-rule (1) of rule 37G.”;

(b) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely: —

“(6) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall lay down procedures, formats and standards for issuance of certificate under sub-rule (5) and the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the issuance of said certificate.”;

(VI) in Appendix II, for Form No.13, the following shall be substituted, namely:—

"FORM No. 13

[See rules 28 and 37G]

Application by a person for a certificate under section 197
and/or sub-section (9) of section 206C of the Income-tax Act, 1961, for no
deduction of tax or deduction or
collection of tax at a lower rate

To

The Assessing Officer,

1. I, _____ of _____ do, hereby, request that a certificate may be issued to the person responsible for paying me the incomes/sum, authorising him, not to deduct/deduct income-tax at lower rate, at the time of payment of such income/sum to me. The details are specified in Annexure-I.

and/or

I, _____ of _____ do, hereby, request that a certificate may be issued to me for receiving the incomes/sum:-

(i) after deduction of income-tax at lower rate as I do not have the details of the person making payments and their number is likely to exceed _____.

(ii) without deduction of income-tax as this application is made for the person/entity specified in rule 28AB.

The details are specified in Annexure-II.

and/or

I, _____ of _____ do, hereby, request that a certificate may be issued to the buyer or lessee or licensee, authorising him to collect income-tax at lower rate at the time of debit of such amount to my account or receipt thereof from me, as the case may be. The details are specified in Annexure-III.

2. The particulars of my income and other relevant details are as under :							
(i) Status (State whether individual, Hindu undivided family, firm, body of individuals, company etc.)							
(ii) Residential status (Whether resident / resident but not ordinarily resident / non-resident during the year which is sought)							
(iii) Permanent Account No.							
(iv) E-mail ID							
(v) Mobile Number							
(vi) Details of existing liability under the Act and the Wealth-tax Act, 1957:—							
		Liability under the Income-tax Act, 1961					
Assessment Year	Amount payable in respect of advance-tax	Amount payable for self-assessment tax	Amount for which notice of demand under section 156 has been served but not paid	Amount payable as deductor or collector which had become due but not paid	Amount payable under the Wealth-tax Act, 1957	Remarks	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(vii) Previous year to which the payments/receipts relate							
(viii) Estimated total income of the previous year referred to in (vii) (Please upload computation of estimated total income of the previous year)							
(ix) Total tax including interest payable for the total income referred to in (viii)							
(x) Details of income claimed to be exempt and not included in the total income in (viii) (Please upload a note giving reason for claiming such exemption)							

(xi) Details of payment of advance-tax and tax deducted/collected, if any, for the previous year referred to in (vii) till date

Nature of prepaid tax	Amount of Total Tax Paid
Advance Tax	
TDS	
TCS	

(xii) whether exemption under section 10, section 11 or section 12 is claimed (Yes/No) (If Yes, please upload registration/exemption certificate/approval, if any, issued by the Income-tax Authority)

(xiii) Where return of income for any of the four previous year preceding to the previous year referred to in (vii) has not been filed, please upload a computation of estimated total income of the previous year for which return of income has not been filed.

(xiv) Where return of income for any of the four previous year has been filed in paper form, please upload the copy of such returns.

I, _____ do hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above is correct, complete and truly stated, I declare that the incomes/sum referred to in this form are not includible in the total income of any other person under sections 60 to 64 of the Act. I further declare that what is stated in this application is correct. I also declare that I am making application in my capacity as _____ and I am also competent to make this application and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted).

Date:

Signature

Place:

Address

ANNEXURE I

Please furnish following particulars in respect of the income/sum for which the certificate is sought

Sl.No.	Tax deduction and collection account number (TAN) or Permanent account number (PAN) of the person making payment	Section under which tax at source is to be deducted	Estimated amount of income/sum to be received	Requested rate of Deduction (Please fill '0' where 'NIL' deduction is requested)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

ANNEXURE II

[For the purpose of tax deduction at source]

Please furnish following particulars in respect of the income/sum for which the certificate is sought. (Please upload a note justifying the issue of certificate under proviso to the sub-rule (4) of rule 28AA)

Sl.No.	Section under which tax at source is to be deducted	Estimated amount of income/sum to be received	Requested rate of Deduction
(1)	(2)	(3)	(4)

ANNEXURE III

[For the purpose of tax collection at source]

Please furnish following particulars in respect of amount payable for which the certificate is sought

Sl.No.	Tax deduction and collection account number (TAN) or Permanent account number (PAN) of the Seller/Lessor/Licensor	Sub-section under which tax at source is to be collected [Please specify as per table given below the sub-section(s)]	Estimated amount to be debited/paid	Requested rate of collection
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Date: _____ Signature _____

Place: _____ Address: _____

[Notification No. 74/2018/F.No. 370142/10/2018-TPL]

(Dr. T.S. Mapwal)

Under Secretary (Tax Policy and Legislation)

Note: The Principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969(E), dated the 26th of March, 1962 and were last amended vide notification number G.S.R. 1054(E) dated the 23rd of October, 2018.

File

Details

Movement Attachments

Creation Year 1313

Add Details

Nature All

Receipt Details

Receipt No : 951318/2018/O/o Chairperson

File No :

From : Vivek Mishra

Designation : US(TC)

Main Category : General

Sub Category :

Computer No 951318

Address : North Block, New Delhi

Sent Date : 23/10/18 11:45 AM

Diary Date

Letter Ref. No : T.11021/2/2018-TC

Letter Date : 04-10-2018

Name of sender

Subject : Action taken report on recommendations of expendit...

Enclosures: -

Delivery Mode : By Hand

Sender Type :

Movement Details

Output Fields:

All

Letter

Close

Sent By	Sent On	Sent To	Action	Remarks	Received On
SANYAM JOSHI,O/o DY. COMM	23/10/18 11:45	RAKESH SHARMA,TPL-SECTION	Forward	-	-
RASMI RANJAN DAS,O/o JS(TPL-I)	15/10/18 10:38	SANYAM JOSHI,O/o DY. COMM	Forward	-	23/10/18 11:40
RAJESH KUMAR BHOOT,O/o JS(TPL-II)	15/10/18 10:38	RASMI RANJAN DAS,O/o JS(TPL-I)	Forward	Forced Received:Pull up	15/10/18 10:38
Kailash Chand,O/o Chairperson	12/10/18 11:26	RAJESH KUMAR BHOOT,O/o JS(TPL-II)	Forward	-	-

Search Output

Action: Pull Up

): [1]

Actions

Ck
Ni

Receipt Dispatch History

ending
av(s)

Dispatch Number	Subject	Address	Dispatch Date
-----------------	---------	---------	---------------

Pull Up Details P 951318

951318/2018/O/o Chairperson

report on
recommendations
of expenditure
finance
Management
Commission EMC

Receipt/Inbox

Block,
New
Delhi,
Room
No 227-
D,
North
Block

04/10/18 12:00
RAKESH SHARMA,CBDT-
ASO(RS)-TPL
Section

TPL-SECTION

2

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना १५

नई दिल्ली, तारीख 25 अक्टूबर, 2018

सा.का. नि.....(अ) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 197 और धारा 206ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 में, --

(i) नियम 28 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-
“किसी भी निम्न दरों पर आयकर की कटौती या आयकर की कटौती न करने के लिए प्रमाणपत्र देने के लिए आवेदन।”

28. (1) यथास्थिति, किसी भी निम्न दरों पर आयकर की कटौती या आयकर की कटौती न करने के लिए प्रमाणपत्र देने के लिए आवेदन, धारा 197 की उपधारा (1) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्ररूप संख्या 13 में, --

- (i) डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन किया जाएगा; या
- (ii) इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कूट के माध्यम से किया जाएगा।

(2) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक डाटा के सुरक्षित कैप्चर और पारेषण के लिए तथा दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए प्रक्रिया, प्ररूप और मानक अधिकथित करेगा तथा प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) प्ररूप 13 प्रस्तुत करने के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेख और पुनःप्राप्ति नीतियां तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।”

- (ii) नियम 28क में, --

(अ) उप-नियम (2) में, --

(क) खंड (ii) में, "जैसी भी स्थिति हो, अंतिम तीन की आय" शब्दों के स्थान पर "या यथास्थिति, अंतिम चार का प्राक्कलित आय" रखा जाएगा;

(ख) खंड (iv) में, "संदाय" शब्द के पश्चात् "स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रहण" अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) खंड (v) और खंड (vi) का लोप किया जाएगा;

(अ) उप-नियम (4), उप-नियम (5) और उप-नियम(6) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(4) यथास्थिति, किन्हीं निम्न दरों पर कर की कटौती या कर की कटौती न करने के लिए उस व्यक्ति की सलाह के अधीन उत्तरदायी व्यक्ति को सीधे जारी किया जाएगा, जिसने ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन किया हो"

परंतु जहां कर की कटौती करने के लिए दायी व्यक्तियों के सौ से अधिक होने की संभावना है और आवेदन करने के समय ऐसा आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास ऐसे व्यक्तियों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है, प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को निम्न दर पर कर की कटौती करने के लिए निम्न दर पर कर की कटौती करने के पश्चात् ऐसी आय या राशि को प्राप्त करने के लिए प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के संबंध में और उसमें नामित व्यक्ति के लिए ही विधिमान्य होगा और उपनियम (4) के परंतुक में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र उस व्यक्ति के संबंध में विधिमान्य होगा जिसने ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है।

(6) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक उपनियम (4) के अधीन और उसके परंतुक के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानक अधिकथित करेंगे तथा प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक उक्त प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेख और पुनःप्राप्ति नितियां तैयार करने और कार्यन्वित करने के लिए भी उत्तरदायी।";

(III) नियम 28कख में,--

उपनियम (2) में,--

(क) खंड (i) में अंत में "और" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) खंड (ii) में अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ग) खंड (iii) का लोप किया जाएगा;

(IV) नियम 37छ के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

“धारा 206ग की उपधारा (9) के अधीन निम्न दरों पर कर संग्रहण के लिए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

37छ (1) धारा 206ग की उपधारा (9) के अधीन क्रेता या अनुज्ञापितधारी या पट्टाधारी द्वारा प्रमाणपत्र के लिए आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्ररूप 13 में,—

(i) डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन किया जाएगा; या

(ii) इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कूट के माध्यम से किया जाएगा।

(2) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक डाटा के सुरक्षित कैप्चर और पारोषण के लिए तथा दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए प्रक्रिया प्ररूप और मानक अधिकथित करेगा तथा प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) प्ररूप 13 प्रस्तुत करने के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेख और पुनःप्राप्ति नीतियां तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी होगा”;

(V) नियम 37ज में,—

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“(1) जहां निर्धारण अधिकारी का किसी व्यक्ति द्वारा नियम 37छ के उपनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति का विद्यमान और प्राक्कलित कर दायित्व निम्न दर पर कर संग्रहण को न्यायोचित ठहराता है, निर्धारण अधिकारी ऐसी निम्न दर पर कर संग्रहण के लिए धारा 206ग की उपधारा (9) के उपबंधों के अनुसरण में प्रमाणपत्र जारी करेगा;

(1क) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विद्यमान और प्राक्कलित कर दायित्व का अवधारण निर्धारण अधिकारी द्वारा निम्नलिखित पर विचार करते हुए किया जाएगा, अर्थात्:—

निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष की प्राक्कलित आय पर संदेय कर;

चार वर्ष की यथास्थिति, निर्धारित आय या विवरणी आय या प्राक्कलित आय पर संदेय कर;

अधिनियम और धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधीन विद्यमान दायित्व ;

नियम 37छ के उपनियम (1) के अधीन आवेदन करने की तारीख तक पूर्व वर्ष से सुसंगत, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए अग्रिम कर संदाय, स्रोत पर कटौती किया गया कर और संग्रहित कर।”;

(ख) नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(6) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक उपनियम (5) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया प्ररूप और मानक अधिकथित करेगा तथा प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) उक्त प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेख और पुनःप्राप्ति नीतियां तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी होगा”;

(VI) परिशिष्ट II, प्ररूप 13 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"प्ररूप सं. 13

(नियम 28 और नियम 37छ देखिए)

कर की कटौती न करने पर या निम्न दर पर कर की कटौती या संग्रहण के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 और/या धारा 206ग की उप-धारा (9) के अधीन प्रमाणपत्र के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी,

1. मैं.....निवासी.....यह अनुरोध करता हूं कि मुझे ऐसे आय/राशि के संदाय के समय, निम्नदर पर आयकर की कटौती न करने/कटौती करने के लिए प्राधिकृत है, मुझे आय/राशि संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को प्रमाणपत्र जारी किया जाए। ब्यौरे उपाबंध। पर विनिर्दिष्ट है।

और/या

मैं.....निवासी.....यह अनुरोध करता हूं कि मुझे ऐसे आय/राशि प्राप्ति के लिए प्रमाणपत्र जारी किया जाए :-

- (i) निम्नदर पर आयकर की कटौती के पश्चात् जैसा कि मेरे पास संदत्त करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा मेरे पास नहीं है और जिनकी संख्या.....से अधिक होने की संभावना है।
- (ii) नियम 28ख में विनिर्दिष्ट व्यक्ति/व्यष्टि के लिए दिए गए इस आवेदन के अनुसार आयकर की कटौती के बिना/ब्यौरा उपाबंध-11 पर विनिर्दिष्ट है।

और/या

मैं.....निवासी.....यह अनुरोध करता हूँ कि यथास्थिति, मेरे खाते में ऐसी रकम या मुद्रासे प्राप्ति के विकलन के समय निम्न दर पर आयकर को संग्रहित करने के लिए प्राधिकृत क्रेता, पट्टेदार या अनुज्ञप्ति अधिकारी को प्रमाणपत्र जारी किया जाए । ब्यौरा उपाबंध-III पर विनिर्दिष्ट है ।

2. मेरे आय की विशिष्टियां और अन्य सुसंगत ब्यौरे निम्नलिखित हैं :	
(i) प्रास्थिति(व्यक्तिगत, हिंदू अविभक्त कुटुंब, फर्म, व्यष्टि निकाय, कंपनी आदि का कथन करें)	
(ii) आवासिक प्रास्थिति (निवासी/निवासी लेकिन सामान्यतः रहता नहीं / चाहे गये वर्ष के दौरान गैर-निवासी)	
(iii) स्थायी पता सं.	
(iv) ई-मेल आईडी	
(v) मोबाइल सं.	
(vi) अधिनियम और धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन विद्यमान दायित्व के ब्यौरे :-	

आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन दायित्व						
निर्धारण वर्ष	अग्रिम कर के संबंध में संदेय रकम	स्वतः निर्धारण कर के लिए संदेय रकम	रकम जिसके लिए धारा 156 के अधीन	कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता के रूप में संदेय रकम जो शोधय हो गई थी किंतु संदत्त नहीं की गई ।	धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन संदेय करम	टिप्पणी

(xii) क्या धारा 10, धारा 11 या धारा 12 के अधीन छूट का दावा किया गया है (हां/नहीं) (यदि हां, तो कृपया आयकर प्राधिकारी	
(xiii) जहां (vii) मैं विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्ष के पूर्व किन्हीं चार पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आय की विवरणी को फाइल किया गया है, कृपया पूर्ववर्ती वर्ष के कुल प्राक्कलित आय की संगणना अपलोड करें जिसके आय की विवरणी फाइल नहीं की गई है ।	
(xiv) जहां किन्हीं चार पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आय की विवरणी पेपर फार्म में फाइल की गई है, कृपया ऐसे विवरणियों की प्रति अपलोड करें ।	

मैं.....यह घोषणा करता हूं कि जैसा ऊपर अभिकथित किया गया है वह मेरी जानकारी और विश्वास में सही, पूर्ण और सत्य है, मैं घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप में विनिर्दिष्ट आय/राशि अधिनियम की धारा 60 और धारा 64 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किये जाने योग्य नहीं है । मैं इसके अतिरिक्त यह घोषित करता हूं कि जो भी आवेदन में अभिकथित किया गया है, वह सही है । मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं.....के रूप में अपनी सामर्थ्य में आवेदन करता हूं और मैं इस आवेदन को करने और इसको सत्यापित करने में सक्षम भी हूं । मैं स्थायी खाता संख्याधारित करता हूं (यदि आबंटित हो) ।

तारीख
स्थान

हस्ताक्षर
पता

उपाबंध ।				
कृपया उन आय/राशि की बाबत, जिसके लिए प्रमाणपत्र की ईप्सा की गई है, नीचे दी गई विशिष्टियों में प्रस्तुत करें ---				
क्रम सं.	संदाय करने वाले व्यक्ति की कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टीएस) या स्थायी खाता संख्या	वह धारा जिसके अधीन सोत पर कर	प्राप्त किए जाने वाले आय/राशि की	कटौती की अनुरोधित दर (कृपया जहां शून्य कटौती अनुरोधित है, वहां 0 भरें)

	(पीएस)	की कटौती की जानी है	प्राक्कलित रकम	
1	2	3	4	5

उपाबंध II

(स्रोत पर कटौती के प्रयोजन के लिए)

कृपया उन आय/राशि की बाबत, जिनके लिए प्रमाणपत्र की ईप्सा की गई है, नीचे दी गई विशिष्टियों में प्रस्तुत करें। (कृपया नियम 20कक के उप-नियम (4) में परंतुक के अधीन जारी प्रमाणपत्र को न्यायोचित करने वाला एक नोट अपलोड करें)

क्रम सं.	वह धारा जिसके अधीन स्रोत पर कर की कटौती की जानी है।	प्राप्त किए जाने वाले आय/राशि की प्राक्कलित रकम	कटौती की अनुरोधित दर
1	2	3	4


उपाबंध III

(स्रोत पर कर संग्रहण के प्रयोजन के लिए)

कृपया उन संदेय रकमों की बाबत, जिनके लिए प्रमाणपत्र की ईप्सा की गई है, नीचे दी गई विशिष्टियों को प्रस्तुत करें।

क्रम संख्या	विक्रेता/पट्टाकर्ता/अनुज्ञप्तिकर्ता के कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (टी ए एस) या स्थायी खाता सं. (पी ए एस)	वह उप-धारा जिसके अधीन स्रोत पर कर संग्रहित किया जाना है (कृपया नीचे दिए गए उप- धाराओं में सारणी के अनुसार विनिर्दिष्ट करें)	कटौती/संदत्त की जाने वाली प्राक्कलित रकम	संग्रहण का अनुरोधित कर
1	2	3	4	5
तारीख	हस्ताक्षर			
स्थान	पता			

(अधिसूचना सं. 79/2018/फा.सं.370142/10/2018-टीपीएल)


(डा.टी.एस.मपवाल)

अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (ii) अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए हैं और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1054(अ) तारीख 23 अक्टूबर, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।